

# @Shajahanpurpol

प्रेस नोट: सराहनीय कार्य 14.08.2019

## पुलिस कार्यवाही के दौरान, थाना जैतीपुर पुलिस को मिली सफलता 10 किलोग्राम डोडा के साथ 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी तिलहर के निर्देशन चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 14.08.2019 को थाना जैतीपुर पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी।

इसी क्रम में आज दिनांक 14.08.2019 को थाना जैतीपुर पुलिस थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने रोकथाम जुर्म जरायम व तलाश वांछित अपराधी हेतु भ्रमणशील थी दौराने अभियान पुलिस टीम जैतीपुर शाहजहाँपुर गस्त करते हुए मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि दो व्यक्ति प्लास्टिक के कट्टों में डोडा लेकर ग्राम बंडिया खुर्द की तरफ से लेकर आ रहे हैं जो कहीं बाहर जाने की फिराक में हैं कि सूचना पर जब जैतीपुर पुलिस बंडिया तिराहा के पास पहुँची तो सामने 02 व्यक्ति गाडी की रोशनी में खड़े दिखाई दिये कि शक होने पर गाडी रोककर उतरकर टोकते हुये रुकने को कहा तो नही रुके पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुये दौड़कर घेरकर आवश्यक बल प्रयोग कर अभियुक्त गण **1.राजेन्द्रपाल पुत्र श्री जागन लाल वर्तमान निवासी ग्राम बंडिया खुर्द थाना जैतीपुर जिला शाहजहाँपुर व स्थायी निवासी कुरमुरी थाना फरीदपुर जिला बरेली 2. संजीव पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम बंडिया खुर्द थाना जैतीपुर जिला शाहजहाँपुर** को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना जैतीपुर पर विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1.राजेन्द्रपाल पुत्र श्री जागन लाल वर्तमान निवासी ग्राम बंडिया खुर्द थाना जैतीपुर जिला शाहजहाँपुर व स्थायी निवासी कुरमुरी थाना फरीदपुर जिला बरेली।
- 2.संजीव पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम बंडिया खुर्द थाना जैतीपुर जिला शाहजहाँपुर।

### बरामदगी का विवरण:-

- 1.02 प्लास्टिक के कट्टों में 5-5 किलोग्राम डोडा बरामद हुआ।

### 1.अभियुक्त राजेन्द्रपाल पुत्र श्री जागन लाल का आपराधिक इतिहास:-

- 1.मु0अ0सं0 209/19 धारा 8/15 NDPS ACT थाना जैतीपुर जिला शाहजहाँपुर।

### 2. अभियुक्त संजीव पुत्र रामकिशन का आपराधिक इतिहास:-

- 1.मु0अ0सं0 210/19 धारा 8/15 NDPS ACT थाना जैतीपुर जिला शाहजहाँपुर।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.श्री दिलीप कुमार प्रभारी थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर।
- 2.उ0नि0 श्री भारत सिंह थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर।
- 3.उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर।
- 4.का0 ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर।
- 5.का0 मोनूपाल थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर।
- 6.का0 दिनेश कुमार थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर।
- 7.का0 गौरव कुमार थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर।
- 8.का0 सुमित कुमार थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर।